

RAAJ MEDISAFE INDIA LIMITED

Regd. Office: 75/2 & 3, Industrial Area, Maksi Road, Ujjain-456010

Phone: 0734 2518989 2513349, Email:raajmedisafe@gmail.com,

Website: www.raajmedisafeindia.com

May 31, 2025

To,
The Corporate Relationship Department
BSE Ltd.
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
MUMBAI-400001
Online Filing at:-listing.bseindia.com
Email :- corp.relations@bseindia.com
FAX :- 022 22723121,22722039,2272041

Scrip Code : 524502

Ref.: Disclosure under Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Subject: Submission of copy of newspaper cutting under Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir,

This is with reference to the above-mentioned subject; we are enclosing herewith newspaper cutting of publication of Audited Financial Results for the quarter ended March 31, 2025 (Approved in the Board meeting of the Company held on May 29, 2025) for your information and records.

The above-mentioned Unaudited Financial Results were published in the following News Papers on May 31, 2025.

1. Free Press (English Edition)
2. Chautha Sansar (Hindi Edition)

Kindly acknowledge the receipt of the same and take it on your record.

Thanking You!!!

Yours faithfully,

For Raaj Medisafe India Limited

Sachin Sarda
Company Secretary and
Compliance Officer
Encls: As Stated

HOW CONCRETE JUNGLE WILL CRUSH JAIPUR'S GREEN LUNGS

Manish Godha
JAIPUR

Rajasthan's capital city is in danger of losing a major green cover at Dol Ka Badh.

A proposed concrete Jungle is about to uproot the forest area and locals and environmental activists are fighting hard but finding it difficult to save this vital green lung and biodiversity haven.

The then Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot had announced the development of the park in his budget speech February 24, 2021.

"With the aim of developing Jaipur as a Fintech City in the country, I announce the establishment of a Fintech Park," he had said and earmarked an amount of Rs 106 crore for the project.

Dol Ka Badh is spread over 105 acres of land in the Sanjaya tehsil of Jaipur, near the Dravyavati river.

CUT TO 2025... the BJP-ruled state government pro-

poses to develop Unity Mall, a Fintech Park, hotels and the Rajasthan Mandapam there.

Located at Taron Ki Khoont near Tonk road in Jaipur, Dol ka Badh although on paper has been marked as industrial land since 1980s, giving RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) the legal authority to repurpose it, but on ground, it is a naturally grown 105-acre forest teeming with biodiversity and home to over 2,400 native trees, including Khejri, the state tree, 60 plus species of medicinal herbs, 85 plus species of birds and wildlife including Nilgai, peacocks, rabbits, and other species that depend on this undisturbed habitat.

In a recent media interaction, highlighting the biodiversity of the region, bird, and environment lover Komal Srivastava said, "We have documented all the birds found in this area. The ecology here is very rich and sensitive, which cannot be ignored."

AICTSL ATAL INDORE CITY TRANSPORT SERVICES LIMITED
Plot No.: 30, Residency Area, A.B. Road, Opposite M.G.M. College, Indore, M.P. Telephone No. 0731-2498888, 2904488

NOTICE INVITING E-TENDERS
Indore, Date: 28.05.2025

AICTSL invites online tenders from the reputed & authorised agencies & established companies. Important dates for tender processing are as under:-

Name of Work	Request for proposal for selection of agency to design, build, operate, maintain and transfer 40 New Bus Shelters for AICTSL on PPP Mode with Advertisement Rights
Cost of Tender Form	₹15,000/-
Earnest Money Deposit	₹2,00,000/-
Pre-Bid Meeting	13/06/2025 at 15:00 hrs. (AICTSL Office, Indore)
Last date for online submission of E-tender technical and financial document	26/06/2025 till 17:30 hrs.
Technical Proposal online opening date	27/06/2025 till 17:30 hrs.

Note:
1. Tender document and other details shall be available on Website- www.mptenders.gov.in.
2. Any amendment to the tender conditions will be published on website only.
3. AICTSL reserves to itself the right to reject any or all the tenders or extend the date and time of its sale, submission or opening under its sole discretion without assigning any reason whatsoever.

Chief Executive Officer
Atal Indore City Transport Services Ltd., Indore

SATYA SHYAM TRADING LTD.
CIN : L51102MP1984PLC002664
Regd. Office : 110, Siyaganj, INDORE-452 007 (M.P.)
Ph. 0731-2533410, 2533602, E-mail : shyamstysat@rediffmail.com
Website : www.satyashyam.com

Extract from the Audited Financial Results For the Quarter and Year Ended March 31, 2025 (₹ in Lacs)

Particulars	Quarter Ended 31.03.2025		Year Ended 31.03.2024		Year Ended 31.03.2025	
	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited
Revenue from Operations	733.06	1,278.70	1,004.51	4,169.18	4,408.18	
Profit before tax & Exceptional Items	(17.29)	9.96	-2.60	24.62	46.33	
Profit after tax from continued operations	(6.67)	15.29	2.30	19.64	37.23	
Other Comprehensive Income (Net of Taxes)	(4.10)	(4.84)	1.51	(2.94)	14.36	
Total Comprehensive Income for the year	(10.77)	10.45	3.81	16.70	51.59	
Equity Share Capital	318.81	318.81	318.81	318.81	318.81	
Reserve (as per last audited Balance Sheet)	602.04	610.34	584.03	602.04	584.03	
Earnings Per Share (EPS) (for continuing operations)	—	—	—	—	—	
a) Basic	-0.21	0.48	0.07	0.62	1.17	
b) Diluted	-0.21	0.48	0.07	0.62	1.17	

Notes: (1) The above results for the quarter and year ended 31st March, 2025, which have been subjected to review by Statutory Auditors of the Company were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on 30.03.2025, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. (2) The above financial results are prepared in compliance with Indian Accounting Standards ("IND-AS") as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") [Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] as amended. (3) The figures for the quarter ended 31st March, 2025 are the balancing figure between audited figures in respect of full financial year and the limited reviewed published year to date figures up to the third quarter of the financial year ended 31st Dec., 2025. (4) Depreciation on fixed assets is provided on Straight Line Method as per the estimated remaining useful life of assets. (5) Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to this period classification.

For and on behalf of Board of Directors of
Satya Shyam Trading Limited
Sd/-
Shiv Prasad Agarwal (Chairman)
DIN: 00545387

Date : 30th May, 2025
Place : INDORE

RAAJ MEDISAFE INDIA LIMITED
CIN : L33112MP1985PLC003039
Reg. Off. : 75/2 And 3, Industrial Area, Makai Road, Ujjain, 456010 (M.P.)
Email: raajmedisafe@gmail.com • Website: www.raajmedisafeindia.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER YEAR ENDED MARCH 31, 2025 (Rs. in Lakh except Earnings per share)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.25		Quarter Ended 31.03.24		Year Ended 31.03.25		Year Ended 31.03.24	
		Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited
1	Total income from operations (net)	2,451.08	1,456.08	5,261.94	4,330.90				
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	210.50	128.36	525.48	428.90				
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	210.50	128.36	525.48	428.90				
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax, (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	348.02	102.52	613.12	332.85				
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income (after tax))	343.71	100.58	608.67	334.53				
6	Equity Share Capital	1,317.86	1,317.86	1,317.86	1,260.36				
7	Reserves (including Revaluation Reserve)			1,373.68	(6.69)				
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing operations)								
a) Basic	2.61	0.76	4.60	3.07					
b) Diluted	2.61	0.76	4.60	3.07					

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and Company's website www.raajmedisafeindia.com. This can also be viewed by scanning QR Code. 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. 3. Previous year's figures have been regrouped or re-arranged wherever necessary. 4. The audited Standalone Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved at the meeting of Board of Directors of the Company held on 29th May 2025. 5. Exceptional and/or Extraordinary items, if any, adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules. 6. The segment reporting is applicable for the quarter ended March 31, 2025 due to applicability of IND AS 108, reported segment is qualifying the condition of 10% or more of total available asset of the Company.

For and on behalf of Board of Directors
Raj Medisafe India Limited
Anil Bangar
Chairman and Managing Director
(DIN: 4266716)

Place : Ujjain
Date : 29/05/2025

Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited
(Formerly known as Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Private Limited)
Manufacturer of HDPE/PP Woven Sacks/FIBC/Jumbo Bags BOPP/Non Woven Bags/Tarpoline
CIN: U25204MP2001PLC014855
Regd. Office: Plot No. 192, Sector-1, Pithampur, Dist. Dhar (M.P.), Phone: (07292) 417750-60 (EPBX), Fax: (07292) 417761
Corporate Office: STB House, E-34, HIG Colony, Indore-452 001 (M.P.), Phone: 0731-4061957, 4217400-30 (EPBX)
Fax: 0731-4069782, E-mail: info@tirupatibalajee.net, Website: www.tirupatibalajee.net

Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31st, 2025

In compliance with Regulation 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31st, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on Friday, May 30th, 2025.

The aforementioned Audited Financial Results along with Auditors Report are available on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and also on Company's Website (www.tirupatibalajee.net). The same can be accessed by scanning the Quick Response Code provided below:

For & on behalf of the Board of Directors
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited
Sd/-
Binod Kumar Agarwal
(Managing Director)
DIN : 00322536

Place : Pithampur, Dhar
Date : 30.05.2025

BERYL DRUGS LIMITED
Regd. Off.: Ground Floor, 133, Kanchan Bagh, Indore-452001 (M.P.) Tel.: 0731-2517677
Email: berylidrug25@yahoo.com CIN : L02423MP1993PLC007840

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED 31st MARCH 2025 (Rs. in Lakhs)

Particulars	QUARTER ENDING / Current Year Ending (31-03-2025)	Year to date figures / Current Year ended (31-03-2025)	Year to date figures / Previous Year ended (31-03-2024)
1 Total Revenue from operations (net)	521.96	2255.48	2712.48
2 Net profit (loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	10.18	86.57	100.97
3 Net profit (loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	10.18	86.57	100.97
4 Net profit (loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	15.19	57.89	76.86
5 Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit / (loss) for the period after tax and other Comprehensive Income (after tax))	14.57	58.05	85.70
6 Paid-up equity share capital	507.17	507.17	507.17
7 Reserves excluding revaluation reserve	441.01	441.01	382.96
8 Earnings per share (of Rs. 10 each) - for continuing operations			
Basic earnings per share after extraordinary items	0.30	1.14	1.52
Diluted earnings per share after extraordinary items	0.30	1.14	1.52

NOTES: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.berylidrug.com)

For & on behalf of the Board
BERYL DRUGS LTD.
Sd/-
Sanjay Sethi (Managing Director)
DIN : 00090277

Place : Indore
Date : 30.05.2025

PUBLIC NOTICE
Regarding Warehouse at Survey No. 36, 98 and 101/1 area 1.578 hectares at Baroda Arjun village of Tehsil Sanwer and District Indore (MP)
Notice is hereby given to all concerned that Mr. Anil Choudhary S/o Mr. Nathulal Caste Khat R/o Arjun Baroda Tehsil Sanwer & District Indore has offered aforesaid property to secure credit facilities to be granted by Kotak Mahindra Bank. This is his ancestral property. Any person, beneficiary, family member, successor, or institution having any right, interest, in the said property or have any objection in this regard should write to the undersigned within 7(seven) days from the publication of this notice for consideration of the Bank. In case, any objection is not received within the stipulated period of 7 days it will be considered that this is free from any encumbrances/ charges/claim whatsoever and Bank shall proceed to accept the mortgage of the aforesaid property as security and as and when considered necessary Bank will enforce the mortgage security in its own rights for realization of its total dues to the exclusion of claims of all others if any.

Ankit Kushwah, Advocate
301, Parvati Chambers, 2/3, Moti lake, Indore
Contact No. 930267800, 0731-4300909

FLUIDOMAT LIMITED
Regd. Office: 117, 1st Floor, Navneth Darshan 16/2, Old Palasia
INDORE (M.P.) 452018
CIN : L74210MP1979PLC001452
Website : www.fluidomat.com Email : info@fluidomat.com Tel.no.: 91-731-2546820
AN EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2025 (Rupees in Lakhs except EPS)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income	2765.50	1722.81	7564.23	5894.36
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	882.45	558.34	2980.52	1757.10
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	882.45	558.34	2980.52	1757.10
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	639.26	415.35	2222.35	1305.24
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive income (after tax))	611.15	344.90	2224.63	1390.70
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/-)	492.70	492.70	492.70	492.70
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
a) Basic		12.40	7.00	45.15	28.23
b) Diluted		12.40	7.00	45.15	28.23

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company website (www.fluidomat.com).
2. The company has proposed Dividend @ Rs. 7.50 (75%) on the equity shares of Rs. 10/- each for the financial year 2024-25.

(Scan the QR code to view full financial results)

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(ASHOK JAIN)
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
DIN : 00007813

Bandhan Bank Regional Office: Netaji Marg, Nr. Mithakhali Six Roads, Ellisbridge, Ahmedabad-6. Phone: +91-79-26421671-75

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

NOTICE is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer issued demand notice to the borrower(s) on the date mentioned against the account stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the public in general and in particular the borrower(s) that the undersigned has taken the symbolic possession of the property described herein below under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned against the account. The borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of the Bank for the amounts, interest, costs and charges thereon. The borrowers'/mortgagors' attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of borrower(s), Guarantor & Loan Account No.	Description of the property mortgaged (Secured Asset)	Date of Demand Notice	Date of Symbolic Possession Notice	O/s Amount as on date of Demand Notice
Mr. Suresh Meghwal Ms. Chandara Mangil Bai 20008280001486	All that piece and parcel of the immovable property situated at Ward No.17, House No.118, Pichda Kheetra, Gram Dongargao Teh Suser, Dist- Agar Malwa - 465447 and bounded by: North: House of Mangil Maarsad, East: Rasta and Govt Land, West: Gali and House of Bajrang, South: House of Ratanlal Ji	25.06.2024	27.05.2025	Rs.4,91,259.83
Mr. Krapal Singh Sidiyodi Ms. Suman Bai Sidiyodi 90000000714915	All that piece and parcel of the immovable property situated at Plot on Part of Land Survey No. 1989/1/31 /1/1/1/1/1/1 Situated at Modi Chouraha, Kaaba Suser, P.H. No.38 Ward No.12 Tehsil Suser District Agar- Malwa Total Area 1000 Sq. Ft. 465447 and bounded by: North: Plot of Mr. Than Singh, East: 25 Ft. Wide Road, West: 20 Ft. Wide Road, South: Plot of Mr. Nidhi Sen	26.02.2025	27.05.2025	Rs.12,88,860.16
Mr. Anil Kumar Jain Mrs. Sharda Bai Jain Mr. Biradi chandra Jain Mr. Ashish Kumar Jain Mr. Lalit Jain 20008280000450	All that piece and parcel of the immovable property situated at Admesuring 648 Sq.Ft., House No. 6/1, 6/2, & 6. Ward No.2, Pidawa Road, Itwariya Mohalla, Suser, Tehsil Suser, District Shajapur and bounded by: North: House of Smt Asha Jain, East: House of Smt Asha Jain, West: Road, South: House of Mr. Dhanlal	26.02.2025	27.05.2025	Rs.4,09,442.78
Mr. Jeevan Singh Ms. Anita Bai Mr. Raghuvir Singh Rajput Ms. Mamta Chouhan Mr. Yogendra Rajput 20008170002923	Property - 1 All that piece and parcel of the immovable property situated at PHN 34 Survey No.601/1, 606/1, 607 RIC 02 Gram Mau Teh- Sarangpur Offlane to Sarangpur 465697 and bounded by: North: Road, East: Others House, West: Others House, South: Open Land Property - 2 All that piece and parcel of the immovable property situated at Survey No 601/1, 606/1 Pervari Halka No 51, Sarangpur Dist- Rajgarh, MP 465697 and bounded by: North: AB Road, East: Remaining Land of Seller and Plot of Abjasingh, West: Plant of Remaining Land of The seller and mehtab Singh, South: Remaining Land of Seller	29.05.2024	27.05.2025	Rs.12,25,672.47
Mr. Deepak Dangl Mr. Shiv Charan Dangl Ms. Ayodhya Dangl 20008170003002	All that piece and parcel of the immovable property situated at 1800 Sq Ft (167.224 Sq.Mtr.) Situated at Survey No.220/2 Final Plot No.237 238 PHN 10 220/2/23 Anand Vatika Gram Mullangura Opp Soyabeen Plant Biora Rajghat MP and bounded by: North: Plot No 236, East: 15 Ft. Wide Road from Seller's Land, West: 03 Ft. Wide Lane from Seller's Land, South: 20 Ft. Wide Road from Seller's Land	26.02.2025	27.05.2025	Rs.2,81,867.08
Mr. Manishakumar Sharma Mr. Chandrashekhar Sharma Ms. Premakunvar Sharma Ms. Maya Sharma 20008070002180	All that piece and parcel of the immovable property situated at Plot No.1010, Sitamau, Suwasra Road, Gram and Post Titrod, Tehsil Sitamau Dist. Mandasaur, Madhya Pradesh and bounded by: North: Sitamau Suwasra Road, East: House of Sanjay, West: House of Bhuvanramji, South: Nala	07.01.2025	27.05.2025	Rs.2,69,146.62
Mr. Laluram Chouhan Ms. Murni Bai Chouhan 20008070001728	All that piece and parcel of the immovable property situated at Survey No.276, PH No.35, Final Plot No.135, Gram Semliyan, Tehsil- Sitamau, Dist- Mandasaur, Madhya Pradesh - 458990 and bounded by: North: House of Govardhan, East: Land of Kamalashanar, West: Raasta, South: House of Satyanarayan Ji	08.01.2025	27.05.2025	Rs.7,10,808.31
Mr. Lal Singh Rajput Mrs. Prem Kunwar Rajput 20008170002397	All that piece and parcel of the immovable property situated at Bungalow Admesuring Land Area 422.7 Sq. Mtr. Final Plot No. 24, Survey No. Reg. No. MR 309852018 All 99006 Village Barkheda Khurram, Street No. Tehsil Sarangpur Dist- Rajgarh - Madhya pradesh - 465687 and bounded by: North: Land of Mr. Raghuvir Singh, East: Plot of Mr. Joravar Singh, West: Road, South: Road	26.02.2025	28.05.2025	Rs.4,36,047.19

Place: Madhya Pradesh
Date: 31/05/2025

Authorised Officer
Bandhan Bank Limited

Silver Oak (India) Limited
CIN : L11531MP1984PLC002635
Regd. Off. & Works : Plot No.110, Sector-1, Industrial Area, Pithampur-454775, Dist. Dhar (M.P.)
Phone: 07292-403170, Email: silveroak.indore@gmail.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2025 (₹ in Lacs except EPS)

S. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED					
		QUARTER ENDED		YEAR ENDED		QUARTER ENDED		YEAR ENDED			
		3 Months Ended (31.03.2025)	Preceding 3 Months Ended (31.12.2024)	Corresponding 3 Months Ended (31.03.2024) in the Previous Year	Year to date figures for Current Period Ended (31.03.2025)	Year to date figures for Previous Year Ended (31.03.2024)	3 Months Ended (31.03.2025)	Preceding 3 Months Ended (30.12.2024)	Corresponding 3 Months Ended (31.03.2024) in the Previous Year	Year to date figures for Current Period Ended (31.03.2025)	Year to date figures for Previous Year Ended (31.03.2024)
1	Total Income from Operations (Net)	2.87	0.16	1.39	3.35	1.56	18.72	164.59	155.95	219.43	166.82
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or Extraordinary Items)	(18.54)	(36.23)	(121.10)	(132.57)	(156.24)	(29.03)	3.82	(29.83)	(97.18)	(78.52)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or Extraordinary Items)	(18.54)	(36.23)	(121.10)	(132.57)	(156.24)	(29.03)	3.82	(29.83)	(97.18)	(78.52)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or Extraordinary Items)	(18.54)	(36.23)	(121.10)	(132.57)	(156.24)	(28.11)	(6.03)	(29.83)	(106.11)	(87.91)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(18.54)	(36.23)	(121.10)	(132.57)	(156.24)	(34.12)	(28.98)	(48.69)	(106.11)	(87.91)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value - ₹ 10/-)	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02	379.02
7	Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	(1,054.60)	(1,054.60)	(898.37)	(1,054.60)	(898.37)	365.96	365.96	481.20	365.96	481.20
8	Earning Per Share (before extraordinary items)	(0.49)	(0.96)	(3.20)	(3.50)	(4.12)	(1.12)	(0.89)	(1.14)	(3.08)	(3.04)
	a) Basic (not to be annualized)	(0.49)	(0.96)	(3.20)	(3.50)	(4.12)	(1.12)	(0.89)	(1.14)	(3.08)	(3.04)
	b) Diluted (not to be annualized)	(0.49)	(0.96)	(3.20)	(3.50)	(4.12)	(1.12)	(0.89)	(1.14)	(3.08)	(3.04)

NOTES:
1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 29 May 2025 and the Statutory Auditors of the Company have also carried out Limited Review of the Audited results for the Quarter ended on 31.03.2025.
2. The Company adopted Indian Accounting Standards ("IND AS") from 01.04.2017 and accordingly principles laid down in the IND AS 34 Interim Financial Reporting" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder.
3. Previous Quarter's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary.

Place : Indore
Date : 29.05.2025

For and on behalf of
SILVER OAK (INDIA) LIMITED
Shirish Jaitare
Whole Time Director
(DIN : 00070935)

For and on behalf of
LEELA KATANI LIMITED
Leela Kalyani
Director
(DIN : 06625369)

